



८६/९



# अनुचक्र

२१२-२  
ममै/१६

रामेश्वर दयाल दुबे -

विद्यु